



इंडियन रेलवे कैंटरिंग एवं टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम-मिनी रत्न)
INDIAN RAILWAY CATERING AND TOURISM CORPORATION LTD.
(A Govt. of India Enterprise-Mini Ratna)

"CIN-L74899DL1999GOI101707". E-mail : info@irctc.com, Website : www.irctc.com

No. 2020/IRCTC/CS/ST.EX/356

August 11, 2022

BSE Limited (Through BSE Listing Centre) 1 st Floor, New Trade Wing, Rotunda Building, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street Fort, Mumbai-400001 Scrip Code: 542830	National Stock Exchange of India Ltd. (Through NEAPS) National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400051 Scrip Symbol: IRCTC
--	--

Sub: Newspaper publication of Unaudited Financial Results for the quarter ended on June 30, 2022.

Sir/Madam,

Please find enclosed herewith the extracts of Unaudited Financial Results for the quarter ended on June 30, 2022, published in the "Financial Express", "Indian Express", "Mint" and "Hindustan Times" (in English version) and "Hindustan" and "Jansatta" (in Hindi version) on August 11, 2022

This is for your kind information and record please.

Thanking you,

For and on behalf of Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited

for Prashant
11/08/22
(Suman Kalra)

Company Secretary and Compliance Officer
Membership No: F9199



Encl: as above

Corbevax gets a boost as govt allows mixing of Covid vaccines

New booster dose option to be available from tomorrow

FE BUREAU
Pune, August 10

THE GOVERNMENT ON Wednesday approved Biological E's Corbevax Covid-19 vaccine as booster dose for adults.

This is the first time that a different vaccine dose is being permitted as a booster dose.

The Corbevax option would go live on the CoWin vaccine portal from August 12, Union health secretary Rajesh Bhushan said.

Adults vaccinated with either Covaxin or Covishield will now be allowed to take the Corbevax dose, six months or 26 weeks after administration of the second dose.

Biological E's Corbevax as a precaution dose would be for those above 18 years and vaccinated with either Covishield or Covaxin.

This is in addition to the Covishield and Covaxin approved as the homologous booster dose. Corbevax is the only heterologous vaccine approved for booster dose.

Bhushan has written a letter to all states and union territories, asking them to take note of the change and administer the vaccine to those who are eligible and due for booster doses.

There will be no change in existing guidelines for homologous precaution dose administration of Covaxin and Covishield, he added.



Corbevax will be available as precaution dose after completion of 6 months or 26 weeks from the date of administration of the second dose of either Covaxin or Covishield vaccines for population above 18 years.

RAJESH BHUSHAN,
SECRETARY, HEALTH
MINISTRY

The decision has been taken based on scientific evidence, global practices and the recommendations of domain knowledge experts.

"Instruction in this regard may be issued to all concerned officials and it may also be publicised widely."

"I look forward to your support and leadership in achieving high coverage of precaution dose to all due beneficiaries at Covid vaccination centres during the ongoing 'Covid Vaccination Amrit Mahotsav' campaign," Bhushan said in the letter.

TO BUY RUSSIAN COAL

Firms swapping dollar for Asian currencies

SUDARSHAN VARADHAN
New Delhi, August 10

COMPANIES ARE USING Asian currencies more often to pay for Russian coal imports, according to customs documents and industry sources, avoiding the US dollar and cutting the risk of breaching Western sanctions against Moscow. Reuters previously reported on a large Indian coal deal

involving the Chinese yuan, but the customs data underline how non-dollar settlements are becoming commonplace.

India has aggressively stepped up purchases of Russian oil and coal since the war in Ukraine began, helping to cushion Moscow from the effects of sanctions and allowing New Delhi to secure raw materials at discounts compared to supplies from

other countries. Russia became India's third-largest coal supplier in July, with imports rising by over a fifth compared with June to a record 2.06 million tonnes.

In June, Indian buyers paid for at least 742,000 tonnes of Russian coal using currencies other than the US dollar, according to a summary of deals compiled by a trade source based in India using cus-

tom documents and shared with Reuters, equal to 44% of the 1.7 million of tonnes of Russian imports that month.

Indian steelmakers and cement manufacturers have bought Russian coal using the United Arab Emirates dirham, Hong Kong dollar, yuan and euro in recent weeks, according to customs documents separately reviewed by Reuters.

—REUTERS



Extracts of Unaudited Financial Results for the Quarter Ended on June 30, 2022

Particulars	Consolidated		Standalone	
	Quarter Ended on 30.06.2022 (Unaudited)	Year Ended on 30.06.2021* (Unaudited)	Quarter Ended on 30.06.2022 (Unaudited)	Year Ended on 30.06.2021* (Unaudited)
Total Income from Operations (Net)	1,79,899.82	1,37,428.91	7,69,060.78	1,36,581.23
Net Profit / (Loss) from Ordinary Activities before Tax (before Exceptional Items)	10,494.52	4,953.21	38,769.01	3,961.04
Net Profit / (Loss) from Ordinary Activities before Tax (after Exceptional Items)	(555.43)	4,953.21	(1,688.91)	3,743.29
Net Profit / (Loss) from Ordinary Activities after Tax (after Exceptional Items)	(484.89)	3,680.70	(1,320.26)	2,721.94
Total Comprehensive Income after taxes and Non Controlling Interest	(594.15)	3,541.21	(1,299.66)	2,706.24
Paid up Equity Share Capital	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet		1,58,772.12		1,58,475.35
Earnings Per Share (from continuing & discontinuing Operations) (of ₹1/- each) (Not Annualised):				
(a) Basic (in ₹)	(0.03)	0.20	(0.07)	0.15
(b) Diluted (in ₹)	(0.03)	0.20	(0.07)	0.15

*Restated

The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on August 10, 2022.

The Consolidated & Standalone financial results for the quarter ended June 30, 2022 have been limited reviewed by statutory auditors of the company. The statutory auditors have expressed unmodified conclusion on Standalone Financial Results and modified conclusion on Consolidated Financial Results.

Comparative figures have been regrouped/reclassified/rearranged wherever deemed necessary to conform to current period classification and negative figures have been shown in brackets.

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange Websites (www.bseindia.com / www.nseindia.com) and Company's Website (www.nbccindia.in).

For and on behalf of NBCC (INDIA) LIMITED

Place: New Delhi

Date: August 10, 2022

(P. K. Gupta)

Chairman & Managing Director

Driving Sustainable Development - Making A Difference

Commerce in India rapidly going digital: Salesforce

FE BUREAU
New Delhi, August 10

SALESFORCE, A LEADER in customer relationship management (CRM), said on Wednesday that same-site sales grew 44% between first quarter 2020 and Q1 of 2022 at business to consumer companies, and 9% at business to business companies.

However, e-commerce sites are the tip of the iceberg as sellers race to meet customer expectations for new buying options. Respondents from India expect an average of 48% of revenue to come from digital channels within two years.

The rise of cryptocurrency as a payment option is forecasted to soar in the coming years. In the meantime, mobile wallets and instalment plans are seeing a big boost, Salesforce said in a report.

About 71% respondents in India expect at least one mobile wallet option to take effect.

The report also highlights that over 4,000 commerce practitioners across 25 countries, including 200 from India, as well as analysis of buying data from over one billion customers across 54 countries, on how B2B and B2C companies are adapting to a digital-first customer engagement landscape.

Also, with hotlines stretched by inflation — and third-party cookies being deprecated — commerce organisations are focused on putting customer data to work to drive efficiency and profitability. About 62% of respondents say automation will be a priority over the next two years.

Deepak Parganikar, vice president (solution engineering), Salesforce India, said, "While the migration of customers and businesses towards digital channels began much earlier, the pandemic only accelerated the transition. The increased transactions online are both a boon and a challenge for customer-facing teams handling transactions on existing and emerging platforms. Investments in technology are key to stay on course with the digital wave in the coming years."

Principal Partner

INDIAN CHAMBER OF COMMERCE

TRIGYN technologies

DEETYA

2ND ICC
EDTECH
SUMMIT

11th August 2022, Thursday at Taj Bengal Kolkata | Hybrid Format

Esteemed Speakers

Prof. Anil D. Sahasrabudhe
Chairman, All India Council for Technical Education

Prof. K K Aggarwal
Chairman, National Board of Accreditation

Mr. Dilip Hanumara
CEO and Director, Trigyn Technologies

Prof. Saikat Maitra
Vice Chancellor, MAKAUT

Prof. Dhruvjayoti Chattopadhyay
Vice Chancellor, Sister Nivedita University

Prof. Dr. Anupam Basu
Director, NIT Durgapur

Prof. Dr. Maitree Bhattacharya
Director, Jagadisa Bose National Science Talent Search (JBNSTS)

Prof. Samista Samanta
Vice Chancellor, KIIT University

Mr. Mohan Kannegal
CEO - India & APAC (Consumer), Emeritus

Mr. Dipyaman Sanyal
Head - Academics & Learning, Hero Vired

Prof. Bhushan Patwardhan
Chairman, National Assessment and Accreditation Council

H.E. Mr Nick Low
British Deputy High Commissioner, Kolkata

Prof. Suranjan Das
Vice Chancellor, Jadavpur University

Mr. Satyam Roychowdhury
Chancellor, Sister Nivedita University

Prof. Malabika Sarkar
Vice Chancellor, Ashoka University

Dr. Debanjan Chakrabarti
Director East & North East India, British Council

Dr. Chiranjib Bhattacharjee
President, West Bengal Council of Higher Secondary Education (WBCHSE) & Pro Vice Chancellor, Jadavpur University

Prof. Ajoy Kumar Ray
Director, JIS Institute of Advanced Studies & Research

Mr. Aakash Naidu
Founder & CEO, The Startuppreneur

Mr. Supreeth Nagaraju A
Head - Education, Adobe Systems, India & South Asia

Mr. Subrata Roy
Director, Tutopia

University Partner

Associate Partner

Academic Partners

JIS

HERO Vired

OmDayal Group of Institutions

HERITAGE INSTITUTE OF TECHNOLOGY

MAKAUT

INDIAN RAILWAY CATERING AND TOURISM CORPORATION LTD.

(A Government of India Enterprise - Mini Ratna Category-I)
CIN: L74899DL1999GO101707

Registered & Corp. office: 11th Floor, B-148 Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi-110001

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2022

Sl. No.	PARTICULARS	Quarter ended		Year ended	
		30.06.2022 (Unaudited)	31.03.2022 (Note-10) (Unaudited)	30.06.2021 (Unaudited)	31.03.2022 (Audited)
1	Revenue from Operations	85,259.06	69,096.12	24,336.96	1,87,947.84
2	Other Income	2,441.72	2,583.29	1,457.05	7,282.55
3	Total Income	87,700.78	71,679.41	25,794.01	1,95,230.39
4	Net Profit/(Loss) for the period before Tax and exceptional items	32,930.30	28,720.82	11,107.76	89,351.74
5	Net Profit/(Loss) for the period before Tax and after exceptional items	32,930.30	28,720.82	11,107.76	88,951.74
6	Net Profit/(Loss) for the period after Tax	24,552.39	21,378.25	8,252.46	66,368.91
7	Total Comprehensive Income (Comprising Profit/(Loss) (after tax) and other comprehensive income (after tax)	24,848.87	21,662.20	8,721.85	66,806.91
8	Paid-up Equity Share Capital (Face value of ₹2/- each)	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
9	Other Equity				1,72,388.05
10	Earning per equity share (EPS)*				
	Basic (₹)	3.07	2.67	1.03	8.30
	Diluted (₹)	3.07	2.67	1.03	8.30

*EPS for quarters are not annualised. Number of shares used for calculation of EPS are 8000 lakhs. (Refer note no. 9 below)

- Notes:
- The above unaudited financial results of the Company have been reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 10th August, 2022. The Statutory Auditors have conducted limited review of the unaudited Financial Results.
 - The above unaudited Financial Results of the Company have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind-AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended from time to time.
 - Catering contracts awarded before 22nd March, 2020 have been treated as zero period due to Pandemic and accordingly, no income as well as Railways share payable has accrued during the year 2020-21 and for the period up to 28.11.2021. Catering services have been restarted with cooked food from 27.11.2021 in a phased manner and income and Railways share payable has been accrued accordingly. However, the effect of enhancement of License Fee for the periods from 18.11.2019 to 22.03.2020 and 27.11.2021 to 30.06.2022 has not been ascertained & recognized on account of increase in catering tariff as per the CC-60 of 2019 issued by the Railway Board, since due to Pandemic, the sales assessment by the Company was pending which is now in progress.
 - During the Financial Year 2021-22, an amount of ₹ 2713.32 lakhs was paid and charged to revenue on account of 15% Railway share in profits of Railways plants (owned and PPP plants) to 31.3.2021 as Railways have not agreed with the contention of the company's Railways is part of catering segment which is in loss and also demands 40% revenue share for PPP Plants. No provision was made for the Financial Year 2020-21 in view of the loss incurred in Railways segment after considering above payment of ₹ 2,713.32 lakhs as expense for that year. For the quarter ended 30th June, 2022, an amount of ₹ 137.79 Lakhs have been booked as expense which is @15% of the Profits of Railways Plants. These matters are subject to confirmation and reconciliation with Railways.
 - As per the terms and conditions of the tender, in respect of 4 PPP Railways plants, the Developer cum Operator (DCOs) are to be reimbursed the GST on sales net of Input Tax Credit (ITC) availed by them. The impact for the same was accounted for in Financial Year 2021-22 except for one plant where figures of ITC claimed by the DCO was not available. Further, due to non-availability of figures of ITC claimed by the DCOs of 3 PPP Railways Plants for the quarter ended 30th June 2022, the same could not be estimated and accounted for in the quarter ended 30th June 2022 and these DCOs have represented against the claim of ITC for Input Tax Credit. IRCTC has nominated a committee to examine the provisions of the contract agreement vis-à-vis applicable laws and impact will be given in the books as per the approval of the Competent Authority.
 - The Anti Profiteering Authority issued notice dated 25.02.2022 for profiteering amount of ₹5041.44 Lakhs under section 171 of the CST Act, 1972 for not passing the benefit of tax reduction to consumers. The show cause notice is being contested by the Company and the matter is pending.
 - Arbitration award was pronounced in April, 2022 amounting to ₹ 7400 Lakhs plus simple interest @6% per annum from July, 2018 onwards. In favour of certain licensees which represents principal amount towards claims for supply of welcome drinks not paid to licensees and recovery of difference for the supply of regular meals to the passengers on the instructions of Railways whereas the price of combo meal, which is lower than the price of regular meal, was reimbursed to these licensees. The matter has been referred to the Railways for their instructions on the matter as the main liability in this matter would be of Railways and the Company has the right to recovery from Railways in case ultimately it is made liable to pay. The matter is pending.
 - For the Financial Year 2021-22, net Exceptional expenses amounting to ₹ 400.45 Lakhs includes (i) ₹ 248.54 Lakhs being reversal of excess provisions for previous years relating to Performance Related Pay, (ii) ₹ 271.32 lakhs being expense on account of 15% Railway share in profits of Railways plants up to 31.3.2021 (refer Note no. 4); and (iii) ₹ 4.33 Lakhs being excess provisions written back for previous years relating to various other expenses.
 - During the Financial Year 2021-22, the Company has Sub-divided its 1603 Lakhs equity shares of face value of ₹ 10/- each fully paid up into 8000 Lakhs equity shares of face value of ₹ 2/- each fully paid up w.e.f. 29th October, 2021 as recommended by the Board of Directors and approved by the Shareholders of the Company. Earnings per Share (EPS) have been calculated / restated, as applicable, for all the periods presented after considering the new number of equity shares post such sub-division in line with the provisions of the applicable Ind AS and to make figures of EPS comparable with previous periods figures.
 - Figures for the quarter ended 31st March, 2022 represents the derived figures between audited figures in respect of the full Financial Year ended 31st March, 2022 and the unaudited published year-to-date figures up to 31st December, 2021 being the date of the end of the third quarter of the relevant Financial Year which were subjected to limited review by the statutory auditors of the Company.
 - The figures for the previous periods have been regrouped/reclassified/restated, wherever considered necessary.

For & on behalf of the Board of Directors

Place : New Delhi

Dated : 10th August, 2022

Rajni Hasija


Chairperson & Managing Director

DIN: - 88065474

New Delhi

Organizers have asked for the WC to start one day earlier to allow Qatar to feature in first match

In addition to changing the date of Qatar's opening game against Ecuador, the proposed adjustment would affect another match set for the tournament's opening day: Senegal's game against the Netherlands, which would be moved out of its afternoon time slot into an evening window. Planning for the Qatar World Cup has been bumpy. Granting the hosting rights to Qatar eventually required FIFA to move the event to the Northern Hemisphere's winter because the searing summer temperatures in the Gulf were deemed to pose a potential health risk to players, officials and



PROPOSED NEW SCHEDULE
November 20
 Qatar vs Ecuador: 9.30pm
November 21
 England vs Iran: 6.30pm
 Senegal vs the Netherlands: 9.30pm
November 22
 USA vs Wales: 12.30am

The switch has upended the soccer calendar, leading to an unprecedented mid-season interruption to the European league season and other competitions around the world. Negotiations with clubs — furious about the weeks-long disruptions to their league schedules and television contracts — resulted in the tournament being played in fewer days (28) than any other event since it was expanded to 32 teams in 1998.

Should the switch of the opening match be approved, overseas ticket-holders who had planned to attend would face the potential challenge of changing their travel plans and rebooking hotel rooms, and any players competing in European leagues – Ecuador at times has more than a dozen – would have one fewer day to travel and prepare. The plan has already caused disquiet among ticket holders, with the proposed changes making some combinations of games all but impossible for visitors to attend. New York-based Martin Bazzola told *The Times* he had secured tickets for the game between Senegal and the Netherlands and the United States opener with Wales later that day. FIFA switching Senegal's game to the later slot means he

Separately, a FIFA appeals committee is considering an appeal by Chile to throw Ecuador out of the World Cup over accusations that Ecuador had fielded an ineligible player. Several Ecuadorian players based in Europe would only have six days to prepare for the tournament, fewer than any others involved in the World Cup. "The FIFA administration has assessed the commercial and legal implications of the proposal—including the impact on contractual commitments across media rights, sponsorship, and ticketing and hospitality—as well as the impact on traveling fans, and has determined that any risk is sufficiently outweighed by the value and benefits of the proposals," FIFA said in the letter.

*EPS for quarters are not annualised. Number of shares used for calculation of EPS are 8000 lakhs. (Refer note no.9 below)

- The above unaudited financial results of the Company have been reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 10th August, 2022. The Statutory Auditors have conducted limited review of the unaudited Financial Results.
2. The unaudited Financial Results of the Company have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind-AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended from time to time.
3. The quarter ending 30th June, 2022, was a period of transition for the Company during the period due to Pandemic and accordingly, no income as well as Railways share payable has accrued during the year 2021-22 and for the period up to 26.11.2021. Catering services has been resumed with cooked food from 27.11.2021 in a phased manner and the cost of the Railway share payable has been accrued from 27.11.2021 to 30.06.2022. The cost of the Railway share Fee for the periods from 14.10.2019 to 22.03.2020 and 27.11.2021 to 30.06.2022 has not been ascertained and accordingly, the same has been accounted for on the basis of the information received from the Railways upto due to Pandemic, the sales assessment by the Company was pending which is now in progress.
4. During the Financial Year 2021-22, an amount of ₹ 2713.32 lakhs was paid and charged to revenue on account of the loss incurred in the quarter ending 30th June, 2022. The same has been accounted for as expenditure on the P&L account agreed with the contention of the Company's revenue manager in part of catering segment which is in loss and also demands 40% revenue share for PPP Railways. No provision was made for the Financial Year 2021-22 in view of the loss incurred in the quarter ending 30th June, 2022. The same has been accounted for as expenditure on the P&L account for the quarter ending 30th June, 2022, an amount of ₹ 137.79 lakhs have been booked as expense which is @15% of the profits of Railways Plans. These matters are subject to confirmation and reconciliation with Railways.
5. The Company and its subsidiaries and controlled entities are required to pay Goods and Services Tax (GST) to the Operator (DCOs) are to be reimbursed the GST on sales net of Input Tax Credit (ITC) availed by them. The Impact for the same was accounted for in Financial Year 2021-22 except for one claim where figures of ITC claimed by the DCO was not received. Further, the Company has not received the ITC for the quarter ending 30th June, 2022. The same could not be estimated and accounted for in the quarter ending 30th June, 2022. The same has been accounted for as expenditure on the P&L account for the quarter ending 30th June, 2022.
6. The Company has nominated a committee to examine the provisions of the contract agreement vis-à-vis applicable laws and impact will be given in the books as per the approval of the Competent Authority.
7. The Company has received a demand notice from the Income Tax Department for the year ending 2021-22 of ₹ 504.14 Lakhs on account of Section 17(1) of the CGST Act, 2017 for not passing the benefit of tax reduction to consumers. The said demand notice is being contested by the Company and the matter is pending.
8. The Company was reassessed for the year ending 2021-22 of ₹ 7400 Lakhs plus simple interest @6% per annum from July, 2018 onwards, in favour of certain licensees which represents principal amount towards claims of supply of welcome drinks not paid to licensees and recovery of differential costs for the supply of regular meals to the passengers on the train. The Company has not received the demand notice from the Income Tax Department. The regular meal, was reimbursed to these licensees. The matter has been referred to the Railways for their instructions on the matter as the main liability in this matter would be of Railways and the Company has the right to recover the same from the Railways on the basis of the contract agreement.
9. For the Financial Year 2021-22, net Exceptional expenses amounting ₹ 4004.5 lakhs includes (i) ₹ 2248.54 lakhs being reversal of excess provisions for previous years relating to Performance Related pay, (ii) ₹ 2713.32 lakhs being reversal on account of the loss incurred in the quarter ending 30th June, 2022, (iii) ₹ 100.00 lakhs being reversal of (i) ₹ 64.33 lakhs being excess provisions written back for previous years relating to various other expenses.
10. During the Financial Year 2021-22, the Company has Sub-divided its 1600 Lakhs equity shares of face value of ₹ 10 each into 1600 Lakhs equity shares of ₹ 1 each.
11. The Company has issued a dividend of ₹ 1000 Lakhs on 29th October, 2021 as recommended by the Board of Directors and approved by the Shareholders of the Company. Earnings per Share has been calculated / restated, as applicable, for all the periods (including the current period) for which the Company has been audited in accordance with the provisions of the applicable Ind-AS and to make figures of EPS comparable with previous periods/year.
12. The figures for the quarter ended 31st March, 2022 represents the derived figures obtained after figures in the full year 2021-22 are divided by 4. The figures for the quarter ended 31st March, 2022 are for the period up to 31st December, 2021 being the date of the end of the third quarter of the relevant Financial year which were subjected to limited review by the statutory auditors of the Company.
13. The figures for the previous periods have been regrouped/classified as per the requirements of the Revised Draft

Place : New Delhi
Dated : 10th August, 2020

[illegible]

PM hits out at ‘politics of freebies’, takes on Congress for its protest

Rajeev Jayaswal
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Prime Minister Narendra Modi on Wednesday shunned the political culture of offering freebies to score electoral victories, criticised last week’s ‘Black Friday Protest’ by the Congress during the ongoing celebrations of the 75th Year of Independence – saying that no amount of “black magic” could save the party – and reiterated the government’s resolve to finding lasting solutions of vexed issues such as stubble burning in place of short-cut measures to check air pollution in the National Capital Region (NCR) in winters.

While dedicating a ₹900 crore second-generation ethanol plant in Panipat that will run on farm residue including stubble to the nation, the Prime Minister

counted its five long-term benefits – saving fertility of the soil that is affected due to stubble burning, new ‘green job’ opportunities around collection and distribution of stubble, additional income to farmers, environment protection by stopping stubble burning and savings of valuable foreign exchange by cutting fuel imports.

Modi said people who have a tendency to adopt problems by adopting short-cuts for political selfishness can never solve an issue permanently. “Those adopting short-cuts may get applause for some time, and may gain political advantage, but that does not solve the problem. Adopting a short-cut will definitely result in a short-circuit,” he said, referring to the chronic issue of air-pollution due to the stubble burning.

PM also raised the issue of freebies offered by many political par-



Narendra Modi

ties to win elections. “If there is selfishness in politics, then anyone can come and announce to give free petrol and diesel. Such steps will take away the rights of our children, and prevent the country from becoming self-reliant. Due to such selfish policies, the burden on honest taxpayers of the country will also increase,” he said.

Freebies have become a point of contention between the Centre and states ruled by parties that are not part of the NDA. The Supreme

Court is also hearing a public interest litigation on the matter and at the last hearing indicated that it could consider setting up a panel to look into the issue.

Delhi chief minister Arvind Kejriwal demanded a countrywide referendum on the issue. “Even the poorest man of this country pays tax. He buys something from the market and then pays GST on it. A referendum should be conducted to decide whether government money should be used for family and friends of those in power or for the public,” he said.

Without naming any party, Modi expressed his anguish over the Congress’s protest last Friday, when the party’s leaders sported black clothes. “Those who think that by wearing black clothes, their period of despair will end, are unaware that irrespective of the black magic and their belief in

superstition, the public’s trust will never be restored in them,” he said.

Senior Congress leaders Jairam Ramesh and Randeep Surjewala took to Twitter to hit out at the PM’s remarks.

“They could not do anything to bring black money, now they are making pointless issue about black clothes. The country wants the Prime Minister to talk about their problems, but ‘Jumlaajeevi’ keeps on speaking anything,” Ramesh wrote.

“Dark clouds of back breaking inflation! Black clouds of unemployment! Dark clouds spread over the sinking economy! Falling rupee - dark clouds of closed business! Dark clouds hovering over the stalling industries! Instead of cursing the opposition, speak on the darkness you have spread,” Surjewala said.

ACTION AGAINST RATION VENDOR FOR ‘FORCING’ PURCHASE OF FLAG

KARNAL: The Haryana food and supplies department has suspended the licence of a ration depot holder in Karnal for allegedly forcing people to buy the national flag in order to get food items in the backdrop of the Har Ghar Tiranga campaign, senior officials said on Wednesday.

In videos that surfaced on social media, the vendor, Dinesh Kumar, can be seen saying that the local administration had issued orders saying ration should be given only if people buy the Tricolour. Other clips show beneficiaries alleging that they were refused ration because they did not buy the flag.

The clips surfaced online after a local news outlet visited the shop on Monday. HT could not verify the authenticity of videos.

Speaking to HT, Union food secretary, Sudhanshu Pandey, said no beneficiary can be denied subsidised ration under the NFSA or the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana. HT

Welcome setting up of panel on poll promises, EC tells SC

Utkarsh Anand
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Calling “freebies” a complex term, the Election Commission of India (ECI) on Wednesday told the Supreme Court that it welcomes constitution of an expert panel for a deliberation on ways to regulate electoral promises on hand-outs, but would rather stay away as a participant due to its role as an arbiter of political disputes.

In an affidavit filed a day before the top court is expected to hear a petition by lawyer Ashwini Upadhyay, the ECI supported the top court’s suggestions last week on initiating a consultative process, stating it will be greatly benefited by the recommendations of an expert body and that the statutory body could also accordingly strengthen or modify its existing guidelines.

However, the ECI added, it may not be appropriate for the Commission, being a constitu-

IT MAY NOT BE APPROPRIATE FOR THE ECI, BEING A CONSTITUTIONAL AUTHORITY, TO BE ON THE PANEL, THE POLL BODY SAID

tutional authority, to be part of the expert committee, especially if there are ministries or government bodies in the panel.

“Further, there are continuous elections in the country and any opinion/view/comment during deliberations in a multi-member body might, in the event of being publicised, amount to pre-decide the issue and disturb the level playing field,” said the poll panel.

Upadhyay has sought directions for issuance of stringent guidelines to deregister errant political parties and seize their election symbols for offering

“irrational freebies”.

“Due regard to varying aspects of social, economic, political equity/inclusion, sustainability of finances and fiscal space in short/medium/long-term and cross sectoral implications, such as environmental sustainability, further add complexity to the understanding of the term freebies,” it said.

The bench will on Thursday take up Upadhyay’s petition along with a plea by the Aam Aadmi Party (AAP), which has opposed the petition arguing that electoral promises such as free water, free electricity or free public transport are not “freebies” but examples of discharging “constitutional responsibilities of the State” towards creating a more equitable society.

AAP has stated that litigation in a constitutional court is unsuited to deal with the issues of “freebies” and democratic budgeting, which are in the realm of elected legislature, Union and state governments

COURT REJECTS CBI CHARGE SHEET IN WALAYAR DEATHS

THIRUVANANTHAPURAM: The Protection of Children from Sexual Offences (Pocso) court in Palakkad on Wednesday ordered a fresh probe into the deaths of two Dalit sisters in Walayar village in 2017, after rejecting a CBI charge sheet that said they were driven to suicide.

The federal agency had filed a charge sheet two months ago agreeing to the conclusion of the state police that the girls were driven to suicide because of repeated sexual harassment but their mother had moved the court saying the case was not probed properly and the central agency came to the conclusion without a thorough probe.

The girls, aged 9 and 13, were found dead in their one-room house in Walayar 52 days apart — the elder sister was found dead on January 13, 2017; and the younger one on March 4.

Welcoming the decision, the mother said, “I firmly believe they will not commit suicide. Both were murdered. I feel I will get justice finally”. HT

SC clubs, shifts all FIRs against Nupur Sharma to Delhi Police

Utkarsh Anand
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Supreme Court on Wednesday clubbed and transferred to Delhi Police at least 10 first information reports (FIRs) lodged across the country against suspended Bharatiya Janata Party (BJP) leader Nupur Sharma for her controversial comments on Prophet Mohammed during a TV debate on May 26, while turning down the West Bengal government’s plea to instead set up a multi-state investigating unit, and to monitor the probe.

On July 1, the bench of justices Surya Kant and JB Pardiwala lashed out at Delhi Police, which will now probe cases against Sharma, for giving her a “red carpet” in its initial probe into an FIR against her, and observed that while another person she complained about was arrested immediately, she herself was still free.

Refusing to entertain Sharma’s plea to protect her from arrest and club all the FIRs against her, the bench had also said Sharma was “single-handedly responsible for putting the entire nation on fire”.

However, on July 19, in an apparent rethink, the bench stopped her arrest and also agreed to consider clubbing the FIRs as she claimed threats to her life and apprehension about moving across the country.

In its order on Wednesday, the bench borrowed from the Supreme Court judgment last month in Alt News co-founder Mohammed Zubair’s case, emphasising that all FIRs relating to the same incident must be shifted to a single investigating agency, particularly in the wake of threats to life and liberty expressed by Sharma following FIRs in different states, including Delhi, Maharashtra, West Bengal, Telangana, Karnataka and Jammu and Kashmir. The FIRs have been lodged under charges of promoting enmity between religions, offending religious sentiments and making statements conducive to public mischief.

The bench also extended the interim protection from arrest granted to Sharma on July 19 in all the present and future FIRs, adding that probe in any future FIR shall automatically stand trans-



Nupur Sharma

ferred to Delhi Police. The court said the Intelligence Fusion and Strategic Operations (IFSO) unit of Delhi Police, which is already seized of two pertinent FIRs in the matter, will take the investigation to a logical conclusion.

Sharma will also be at liberty to approach the Delhi high court for getting the FIRs quashed, said the bench, clarifying it has not expressed any view on the merits of the accusations.

“Whatever view we have taken in the Zubair case, we will do that here too. I was a member of that bench,” said justice Surya Kant.

On July 20, another top court bench, which included justice Kant, granted interim bail to Zubair in seven criminal cases registered against him in Uttar Pradesh over his tweets and ordered his immediate release from jail. It also clubbed and transferred all the seven FIRs against the fact-checker from UP to Delhi where the special cell of Delhi Police was carrying out a thorough investigation into his tweets and financial dealings in a separate FIR.

Meanwhile, during proceedings on Wednesday, senior advocate Maneka Guruswamy, appearing for the West Bengal government, argued against transfer of cases to Delhi on the grounds that the first FIR against Sharma was lodged in Maharashtra, while West Bengal happened to be the state where the impact of her controversial statements was felt the most.

“The FIR at Delhi is an FIR filed by her against some unknown persons for extending threats to her. She is a complainant in that FIR and not an accused. But in the Zubair case, the first FIR against him was in Delhi and that is why the cases were transferred there... let there be no impression that an accused is being allowed to pick jurisdiction of her own choice,” she contended.

OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER, R.S.A.M.B., CIRCLE SRIGANGANAGAR
No : 394 **NOTICE INVITING BID-03/2022-23** Date: 08/08/2022
Bids for Common Auction Platform at KUMS Sridungargarh and Repair of building of AHD at Bikaner and road works of KUMS Hanumangarh Jn. are invited from interested bidders upto 06.00 PM of dated 26.08.2022 and 06.09.2022. Other particulars of the bids may be visited on the procurement portal (<http://eproc.rajjasthan.gov.in>, <http://sppp.raj.nic.in>) of the state and for detailed NIB (<http://agriculture.rajjasthan.gov.in/rsam departmental website>).
UBN: AGM2223WSOB00462 to 464
Raj.Samwad/C/22/6167 **SUPERINTENDING ENGINEER**

जगर निगम ग्रेटर जयपुर
(पब्लिश दीनवास उपग्राम मन, लाकोडी, रींज रोड, जयपुर)
क्रमांक :- जखस/2022-23/168 दिनांक 08.08.2022
ई-निविदा सूचना सं. अरिओ आयुक्त (पूजाखाल) 02/2022-2023
केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्य करने का अनुभव रखने वाले एवं नगर निगम, जयपुर के भौतिक इन्फ्रस्ट्रक्चर निविदाताओं से नगर निगम ग्रेटर जयपुर द्वारा कराये जाने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रमों, समारोह, उत्सव, चौकी, पंचो में अन्य कार्यक्रमों में टेण्डर संबंधित सामान किये पर लेने हेतु नर निविदा कार्य हेतु ई-निविदा दिनांक 23.08.2022 को सार्व 06:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। कार्यों की अग्रगणित लागत, बिड बेडे जाने तथा प्राय करने की लारीय, बिड के निगम, सर्व आदि सम्पूर्ण विवरण नगर निगम, ग्रेटर जयपुर की वेबसाईट www.jaipurmc.org.com व राजस्थान सरकार के पोर्टल <http://sppp.raj.nic.in> तथा <http://eproc.rajjasthan.gov.in> पर देखी व अवनलौड की जा सकती है। UBN No. :- JMC2223SL0800668
राज.संवाद/री/22/6215 **अतिरिक्त आयुक्त**

Office of the Project Director (Housing) Rajasthan Urban Drinking Water Sewerage & Infrastructure Corporation Limited
4-Se-24, Jawahar Nagar, Jaipur-302004 (RAJ.) Tel. & fax : 0141-4001187, Email: rudisico.housing@rajjasthan.gov.in
No. :- RUSSICO/PD (HJ)/pr/2022-23/1635 Date: 08/08/2022
Notice Inviting Bid
Bids for Various Construction works at Dist. Barmer, Jodhpur, Pali, Jalore, Pratapggarh, Banswara Durgapur & Rajasmand are invited from interested bidders up to 18:00hrs, 22.08.2022 under Two bid system on E-procurement. Other particulars of the Bid may be visited on the procurement portal (<http://eproc.rajjasthan.gov.in>, <http://sppp.raj.nic.in>) of the state; and <http://urban.rajjasthan.gov.in/rudisico> departmental website. The total approximate value of procurement is Rs. 7335.19 Lacs.
NIT No. 19/2022-23
UBN- RDP2223WSOB00083 to 99
Raj.Samwad/C/22/6146 **General Manager (Works), RUSSICO, Jaipur**

POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LTD
(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)
“Vidyal Bhawan” Near ISBT, Crossing, Saharanpur Road, Majra, Dehradun- 2480021
Corporate IDU40101UR2004SGC028675 Tel. No. 0135-2642473, 2645747
E-TENDER NOTICE
Power Transmission Corporation of Uttarakhand Limited invites E-Tender for “Hosting & Maintenance of Website and Management/Maintenance of Web Applications/tenders/ Information downloading /uploading system for a period of 03 Years” against tender specification No. PTCUL/E-Tender/IT/01/2022. The last date submission of e-bid is 06.09.2022 upto 15:00 Hrs. For more details please visit e_tender website www.uttktenders.gov.in (tender id no.2022_PTCIT_47799_1) and for e-tender notice our website www.ptcul.org.
For any assistance on E-Tendering, please contact +91-88998990000
Ro. No. 833/ HQPU /PTCUL dt 10/08/2022 **Executive Engineer (IT)**
“Save Electricity in the Interest of Nation”

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग के अधीन)
खण्ड-2, पंचम तल, पर्यावास पवन, अरेरा हिल्स, भोपाल
विज्ञापित
क्र. 109920 **दिनांक 10.08.2022**
प्राधिकरण मुख्यालय भोपाल हेतु वित्तीय कार्यालय पर प्रतिनिधित्व एवं सेवानिवृत्ति उपरान्त सिविदा आधार पर, चयन हेतु अर्हताप्राप्ति अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किए जाते हैं।
पूर्णा: भरे हुये आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम दिनांक **30.08.2022** है। इस सम्बन्ध में विस्तृत विज्ञापित एवं आवेदन पत्र के प्रारूप आदि प्राधिकरण वेबसाइट www.mprdra.org पर उपलब्ध हैं।
म.प्र. माध्यम/105904/2022 **मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन)**

राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, इम्फाल, मणिपुर
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
NATIONAL SPORTS UNIVERSITY, IMPHAL, MANIPUR
(A Central University)
Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports
F.No. 4/NSU/ESTT/REG/2022 Date: 08.08.2022
Advertisement
Advt.No. 04/2022
INVITING APPLICATIONS FOR THE POST OF REGISTRAR
Applications in the prescribed proforma are invited from Indian Nationals for filling the post of Registrar in the National Sports University, Manipur.
For further details such as application proforma, qualifications, experience, emoluments, terms and conditions, instructions, application fee etc., please log in to University website: <http://www.nsu.ac.in>.
Last date of submission of application form is **23.09.2022 (4.00 PM)**.
Date: 08.08.2022
Place: Imphal **Sd/- Registrar**
CBC 47116/12/0008/2223

MADHYA PRADESH JAL NIGAM MARYADIT
(A Govt. of Madhya Pradesh Undertaking)
"D" Wing, 2nd Floor, Vindhyachal Bhawan, Bhopal - 462004
Ph. : 0755-2579034, 2579874 | Fax : 0755-2579873
www.mpjalnigam.mp.gov.in | E-mail : mpjalnigam@mp.gov.in
CIN - U41000MP2012SGC028798
NIT No. 91-99/Proc./MPJNM/2022-23 **Bhopal, Dated : 10.08.2022**
NOTICE INVITING E-TENDER
Online Lump-sum rate bids for execution of following Multi Villages Scheme (MVS) are invited from Registered Contractors/firms fulfilling eligibility criteria as specified in tender document. Basic details of MVS are as follows :-

NIT No.	Scheme (MVS)	District	Total Villages (including Bulk Supply Villages)	Bulk Supply Villages	PAC (Rs. Cr.)	EMD (Rs. Lakh)	Cost of Tender Document (Rs.)	Time for Completion (including rainy season) (months)
91	Machagora	Chhindwara	711	486	748.50	50.00	50,000	24
92	Bebus Sunar 2	Chhatarpur & Damoh	351	101	463.68	50.00	50,000	24
93	Kulne Rajnagar	Chhatarpur	133	5	274.02	50.00	50,000	24
94	Meda	Betul	241	197	257.98	50.00	50,000	24
95	Chatarpur (Tarped)	Chhatarpur	139	5	241.19	50.00	50,000	24
96	Garoli	Chhatarpur	112	8	198.44	50.00	50,000	24
97	Bebas Sunar 1	Damoh & Sagar	93	27	134.84	50.00	50,000	24
98	Wardha	Betul	92	63	107.28	50.00	50,000	24
99	Gada	Betul	49	45	56.67	28.34	50,000	24

Interested bidders can view/download/purchase the bid document online from M.P. Government E-Procurement Portal from **12.08.2022, 18:00 Hrs.** Bidding process dates mentioned as critical dates on M.P. Government E-Procurement Portal will be applicable. Corrigendum/Addendum in NIT, if any, would be published on portal only and not in newspapers.
M.P. Government E-Procurement Portal - <https://mptenders.gov.in>
M.P. Madhyam/105919/2022 **MANAGING DIRECTOR**

INDIAN RAILWAY CATERING AND TOURISM CORPORATION LTD.
(A Government of India Enterprise - Mini Ratna Category-I)
CIN : L74899DL1999GO101707
Registered & Corp. office: 11th Floor, B-148 Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi-110001
STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30th JUNE, 2022

Sl. No.	PARTICULARS	Amount in ₹ Lakhs except EPS			
		Quarter ended		Year ended	
		30.06.2022	31.03.2022	30.06.2021	31.03.2022
		(Unaudited)	(Note-10)	(Unaudited)	(Audited)
1	Revenue from Operations	85,259.06	69,096.12	24,336.96	1,87,947.84
2	Other Income	2,441.72	2,583.29	1,457.05	7,282.55
3	Total Income	87,700.78	71,679.41	25,794.01	1,95,230.39
4	Net Profit/(Loss) for the period before Tax and exceptional items	32,930.30	28,720.82	11,107.76	89,351.74
5	Net Profit/(Loss) for the period before Tax and after exceptional items	32,930.30	28,320.37	11,107.76	88,951.29
6	Net Profit/(Loss) for the period after Tax	24,552.39	21,378.25	8,252.46	66,368.91
7	Total Comprehensive Income (Comprising Profit/(Loss) (after tax) and other comprehensive income (after tax)	24,848.87	21,666.20	8,721.85	66,806.91
8	Paid-up Equity Share Capital (Face value of ₹2/- each)	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
9	Other Equity				1,72,388.05
10	Earning per equity share (EPS)*				
	Basic (₹)	3.07	2.67	1.03	8.30
	Diluted (₹)	3.07	2.67	1.03	8.30

*EPS for quarters are not annualised. Number of shares used for calculation of EPS are 8000 lakhs. (Refer note no.9 below Notes):

- The above unaudited financial results of the Company have been reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 10th August, 2022. The Statutory Auditors have conducted limited review of the unaudited Financial results.
- The above unaudited Financial Results of the Company have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind-AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended from time to time.
- Catering contracts awarded before 22nd March, 2020 have been treated as zero period due to Pandemic and accordingly, no income as well as Railways share payable has accrued during the year 2020-21 and for the period up to 26.11.2021. Catering services has been restarted with cooked food from 27.11.2021 in a phased manner and income and Railway share payable has been accrued accordingly. However, the effect of enhancement of License Fee for the periods from 18.11.2019 to 22.03.2020 and 27.11.2021 to 30.06.2022 has not been ascertained & recognized on account of increase in catering tariff as per the CC-60 of 2019 issued by the Railway Board, since due to Pandemic, the sales assessment by the Company was pending which is now in progress.
- During the Financial Year 2021-22, an amount of ₹ 2713.32 lakhs was paid and charged to revenue on account of 15% Railway share in profits of Railiner plants (owned and PPP plants) up to 31.3.2021 as Railways have not agreed with the contention of the company i.e railiner is part of catering segment which is in loss and also demands 40% revenue share for PPP Plants. No provision was made for the Financial Year 2021-22 in view of the loss incurred in Railiner segment after considering above payment of ₹ 2713.32 lakhs as expense for that year. For the quarter ended 30th June, 2022, an amount of ₹ 137.79 Lakhs have been booked as expense which is @15% of the Profits of Railiner Plants. These matters are subject to confirmation and reconciliation with Railways.
- As per the terms and conditions of the tender, in respect of 4 PPP Railiner plants, the Developer cum Operator (DCOs) are to be reimbursed the GST on sales net of Input Tax Credit (ITC) availed by them. The impact for the same was accounted in Financial Year 2021-22 except for one plant where figures of ITC claimed by the DCO was not available. Further, due to non-availability of figures of ITC claimed by respective DCOs of 3 PPP Railiner Plants for the quarter ending 30th June 2022, the same could not be estimated and accounted for in the quarter ended 30th June 2022 and these DCOs have represented against the claim of IRCTC for Input Tax Credit. IRCTC has nominated a committee to examine the provisions of the contract agreement vis-à-vis applicable laws and impact will be given in the books as per the approval of the Competent Authority.
- The Anti Profiteering Authority issued notice dated 25.02.2022 for profiteering amount of ₹5041.44 Lakhs under section 171 of the CGST Act, 2017 for not passing the benefit of tax reduction to consumers. The show cause notice is being contested by the Company and the matter is pending.
- Arbitration award was pronounced in April, 2022 amounting to ₹ 7400 Lakhs plus simple interest @8% per annum from July, 2018 onwards, in favour of certain licensees which represents principal amount towards claims for supply of welcome drinks not paid to licensees and recovery of differential costs for the supply of regular meals to the passengers on the instructions of Railways whereas the price of combo meal, which is lower than the price of regular meal, was reimbursed to these licensees. The matter has been referred to the Railways for their instructions on the matter as the main liability in this matter would be of Railways and the Company has the right to recovery from Railways in case ultimately it is made liable to pay. The matter is pending.
- For the Financial Year 2021-22, net Exceptional expenses amounting ₹ 400.45 Lakhs includes (i) ₹ 2248.54 Lakhs being reversal of excess provisions for previous years relating to Performance Related Pay, (ii) ₹ 2713.32 lakhs being expense on account of 15% Railway share in profits of Railiner plants up to 31.3.2021 (refer note no.4); and (iii) ₹ 64.33 Lakhs being excess provisions written back for previous years relating to various other expenses.
- During the Financial Year 2021-22, the Company has Sub-divided its 1600 Lakhs equity shares of face value of ₹ 10/- each fully paid up into 8000 Lakhs equity shares of face value of ₹ 2/- each fully paid up w.e.f. 29th October, 2021 as recommended by the Board of Directors and approved by the Shareholders of the Company. Earnings per Share have been calculated / restated, as applicable, for all the period(s) presented after considering the new number of equity shares post sub-division in line with the provisions of the applicable Ind AS and to make figures of EPS comparable with previous periods/year.
- Figures for the quarter ended 31st March, 2022 represents the derived figures between audited figures in respect of the full Financial Year ended 31st March, 2022 and the unaudited published year to date figures up to 31st December, 2021 being the date of the end of the third quarter of the relevant Financial Year which were subjected to limited review by the statutory auditors of the Company.
- The figures for the previous periods have been regrouped/reclassified/restated, wherever considered necessary.

For & on behalf of the Board of Directors **Sd/-**
Place : New Delhi **Rajni Hasija**
Dated : 10th August, 2022 **Chairperson & Managing Director**
DIN:- 08083674

कृते निदेशक मंडल की ओर से
हस्ता./-
रजनी हसीजा
अध्यक्ष एवं प्रवक्ता निदेशक

